

प्रेषक,
लुटावन राम
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय:- माह मई एवं जून, 2018 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा (लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा) करायी जाने वाली कार्यशालाओं के आयोजन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-373/ सं०नि०-15(5)/2018-19 दिनांक 11 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह मई एवं जून, 2018 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा (लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा) करायी जाने वाली कार्यशालाओं के आयोजन हेतु रू० 5.40 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा में कार्यशालायें निम्न स्थलों पर कराये जाने की हेतु रू० 5.40 लाख (रूपये पाँच लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	केन्द्र का नाम	विधा/कार्यशाला	स्थल	धनराशि लाख रू० में
1	लखनऊ	लोक गायन एवं नृत्य	राजकीय बालिका विद्यालय, विकास नगर, लखनऊ	0.70
2	इलाहाबाद	लोक गीत	डी०डी०आर० इण्टर कालेज भरवारी कौशाम्बी	0.70
3	इलाहाबाद	सुगम संगीत/भजन गायन	ध्यान केन्द्र चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद	0.70
4	वाराणसी	उप शास्त्रीय गायन	वाराणसी	0.70
5	वाराणसी	पारम्परिक गीतों पर आधारित लोक गायन	जौनपुर	0.70
6	गोरखपुर	नाट्य प्रस्तुतिपरक	राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर	0.70
7	आगरा	लोकनृत्य व लोक गायन	डा० बी०आर० अम्बेडकर ज०हा० आगरा	0.70
8	आगरा	ब्रज लोकनृत्य एवं लोक गायन	क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा	0.70

3- उक्त कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि हेतु रू० 5.40 लाख (रूपये पाँच लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102 - कला एवं संस्कृति का संवर्धन-16-नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना -42अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 99 /2018/ 1305 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा ।
- 5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in/>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।